Mumbai, 10 January

he Budget, to be presented on February 1, should reduce income tax rates, invest in infrastructure in a big way, with the help of low interest rates, and take more steps to make it easier to do business in India, said a cross-section of chief executive officers (CEOs).

The Budget will be presented in the backdrop of a revival of the economy and expectations of good



But the CEOs said the Budget should focus on the big picture and have a long-term view.

the stock markets.

"As the economy recovers from the adverse impacts of 2020, the Budget should keep demand revival as one of its foremost priorities and thereby spur consumption-led growth. As 2021 will be remembered as a watershed year of a large-scale vaccination drive, the government's



plans on public health expenditure will be something that the nation will

be looking forward to," said a CEO. "As interest rates are low, it's time to invest in all infrastructure verticals, besides making it easier to do business - which has remained on paper. The government must treat with an easier tax regime and no harassment from investigating agencies," said the head of a nonbanking financial company.

made it easier to do business in India, CEOs say the lower bureaucracy has

registration in India for over 14 months while in the UK it takes less than four months," said the London-based CEO of a textile retail company. "No one from the Indian government even responds

The CEO of a large steel and pow-

propose a policy of "one nation, one electricity rate"

"This will help consumers as well as electricity generation companies," he said.

Another CEO said non-resident Indians should be given more incentives so that remittances from them picked up again.

"An Indian citizen has to stay out of the country for 240 days a year to claim NRI status. It should be brought down to 120 days," said VR Sharma, managing director, JSPL.

CEOs in the travel, tourism and the airline sectors, hit hard by the pandemic, say tax breaks must be given to support the industries.

'The government must help airlines by reducing tax on aviation fuel for a year," the CEO of a large airline said.

Sanjith Shetty, CEO of a hydro power project, said: "This is the time to maintain adequate liquidity in the financial system and do structural reforms such as education policy, labour codes, and farm bills.

The CEO of a power company said: "The Budget must encourage investment in manufacturing. All subsidies, including those in the power sector, should be directly transferred and there must be reduc-

Biyani: Confused astowhat Amazon wanted to achieve

New Delhi/Mumbai, 10 January

Future Group expects swift regulatory approval of its \$3.4billion deal to sell its retail assets, said Chief Executive officer Kishore Biyani, even as its warring business partner Amazon.com Inc intensifies efforts to block the deal.

Biyani says he has no intention of changing business ties with Amazon despite the souring relationship.

Criticising Amazon, however, Biyani said he was confused as to what Amazon wanted to achieve by blocking the deal. "I am disappointed," he said, "What do they want? They want so many employees to suffer, business to go down?"

In a letter on Tuesday, Amazon had asked the BSE and NSE to suspend their review of the deal, in light of the ongoing Singapore arbitration. To buttress its case, Amazon had, on December



ALREADY GIVEN ITS VIEW THAT EVERY INSTITUTION CAN TAKE A VIEW. THERE IS NO REASON WHY THINGS SHOULD BE **DELAYED''**

KISHORE BIYANI, CEO & FOUNDER FUTURE GROUP

exchanges a confidential 63page legal opinion signed by a former chief justice of India Dipak Misra. In the opinion. seen by Reuters, Misra said Sebi or any other statutory authority "cannot ignore' the interim order passed by

Bright outlook: Drug firms set for Q3 health boost

Mumbai, 10 January

Domestic drug sales in December indicated that the third quarter of the ongoing financial year is going to result in earnings growth recovery for the sector. Analysts expect earnings growth to be in the range of 30-40 per cent for drug firms owing to both domestic recovery as well as strong export opportunities.

Edelweiss said it expected 30 per cent profit after tax (PAT) growth for the sector and around 8 per cent growth in revenues for the December quarter. On the other hand, analysts at Phillip Capital estimated a 43 per cent earnings growth year-on-year (YoY) (down 2 per cent sequentially) on the back of a 10 per cent YoY rise in revenues.

Kunal Randeria, analyst at Edelweiss Securities, felt that with easing lockdown restrictions and field force has resumed, it remains activity picking up, domestic below pre-Covid-19 levels," market recovery is in sight. he said.

ON A STRONG FOOTING

scenarios

of market

(Mesalamine) and

price realisations

to boost earnings

Staggered ramp-up in

Ogivri / Glargine in the US,

continued impact of Covid

in new capacity additions

(both own & in Syngene) to

keep earnings flat

and unabsorbed overheads

in terms

share

by 60%

BIOCON

03 outlook for key drug firms

SUN PHARMA

Faster growth in specialty portfolio (particularly in Ilumya, Cequa & Absorica) drives robust earnings performance (+82% YoY)

Lupin

Launch of Albuterol & relaunch of metformin in the US, biosimilar Enbrel in EU and low base to boost Q3 earnings by 72%

CADILA HEALTHCARE

Supply opportunities due to Covid, improved US generic

According to Randeria, com-

panies like Cipla, Cadila

Healthcare and Glenmark

are expected to report

strong growth, driven by

their Covid-19 portfolios.

"While field force activity

Analysts like Randeria pointed out that while Nifty Pharma has generated 60 per cent returns in the past one year, the strong earnings momentum is needed to sustain the pharma rally.

On the exports front, Phillip Capital said that Covid-led disruptions in key over 50 per cent contribution

Visible ramp up in Albuterol in the US, robust exports and continued traction in Covid portfolio lead to 60% jump in earnings

markets like European Union (EU) and the US have not only boosted export opportunities for Indian pharma, but also improved the pricing trend. A case in point is Sun Pharmaceuticals' increased contribution from speciality portfolio (particularly the

Cadila Healthcare, too, has seen over 30 per cent growth in the complex spedrug category (mesalamine potfolio. Drug is used to treat irritable bowel disease). Lupin has launched albuterol (a respiratory drug) in the US. (see chart)

However, no major US launch is in sight and the flu season, too, is weak. For some firms like Cadila and Cipla, Healthcare Edelweiss analysts feel their domestic revenue growth would be strong — around 10 per cent YoY for Cadila Healthcare, and 13 per cent for Cipla.

formulations and sales costs would

Motilal Oswal analysts feel that with more clinics opening up and rising out-patient consultations, the overall outlook is positive in the Indian pharma market. The domestic pharmaceu-

tical market ended 2020 with a positive prognosis, clocking 8.5 per cent growth in December. This is a sharp revival from November's 1 per cent, owing to revival in volume growth. For the calendar year 2020, however, growth rate slowed to 3.1 per cent compared to the previous year, when it had clocked 9.4 per cent growth. Sheetal Sapale, president, marketing, AIOCD AWACS, a market research firm, said that 2020 had been a challenging year for many industries. but the Indian pharmaceutical market had met this challenge head-on with a positive growth record. "The encouraging trend lines in the past few months are hinting at near-normal revival for most players," said Sapale.

▶ FROM PAGE 1

Nifty Q3...

For comparison, the combined net profit of index firms was up 6.9 per cent, while the combined net sales was down 0.2 per cent YoY during the December 2019 quarter.

'The drivers of corporate earnings are changing at the margin, with the Q3 earnings expected to be led by cyclical sectors like metals and cement, even as health care is expected to post another solid quarter," wrote Motilal Oswal Financial Services analysts in their earnings estimates note.

The brokerage expects its universe of companies' combined profit after tax to grow 17 per cent YoY in O3. Excluding metals and cement, their universe is expected to post just 5 per cent profit More on business-standard.com

growth for the quarter. The analysis is based on

earnings estimates by Motilal Oswal Financial Services, Kotak Institutional Equities (KIE), Edelweiss Securities, IDBI Capital, Antique Stock Broking, and YES Securities. For banks and NBFCs, net

sales reflect their net interest income, while it is total income from the sale of goods and services for other firms. Net sales and PAT for O3 are based on brokerage estimates, while it is reported numbers for the earlier quarters. Tata Steel is expected to be

the top contributor to Nifty earnings' growth in Q3, followed by Indian Oil, JSW Steel, Airtel, and Dr Reddy's.

ASSOCHAM



#Startup 2.0

The Next Wave of Reforms - A Step Towards Aatmnirbhar Bharat

(A webinar on leading a path towards next wave of startup after the pandemic)

Friday, 15th January, 2021 | 11:00AM onwards (Virtual Platform)

Prof. Vinay Dutta

Senior Professor (Finance and Accounting Area) FORE School of Management

Ms. Shradha Sharma

Your Story

Mr. Shashank Kumar

Mr. Nishikant

Founder & Director

Green AG Revolution

Leo Edunomics

Ms. Arshi Ayub Mohammad Zaveri

Royal Family, UAE

Ms. Jyoti Tiwari

Founder and CEO, Ingeniousworks Founder Webinartracker Angel Investor India Fund

Mr. Vijay Shekhar Sharma

One 97 & PAYTM

Mr. Ratin Bhadra

President India Start Up Association

Er. Sanjai Singh Director

Centre for Technology and **Entrepreneurship Development**

Ms. Archana Garg CEO & Founder

Power Talk with Archana

Mr. Abhinav Shah Founder & CEO

OSAM Dairy

Ms. Mallika Bajaj

Founder/CMO Little Yellow Beetle and Apna Dr.

Kindly Register at: https://bit.ly/3ooKcH6

For further details, please contact: Prashant Sethi | M: +91-9110128245 | E: ranchioffice@assocham.com



MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

PUBLIC NOTICE

A New and Comprehensive Form for New Companies

As part of Government of India's Ease of Doing Business (EODB) initiatives, the Ministry of Corporate Affairs has notified and deployed a new Web Form christened 'SPICe+' (pronounced 'SPICe Plus').

SPICe+ offers 11 services by 3 Central Govt. Ministries & Departments and Two State Govt. (Maharashtra & Karnataka), thereby saving many procedures, time and cost for Starting a Business in India and is applicable for all new company incorporations.

SPICe+ is an integrated Web Form. SPICe+ has two parts viz.:

PART A FOR NAME RESERVATION FOR NEW COMPANIES, and PART B OFFERING A BOUQUET OF SERVICES:

Incorporation

(iii) Mandatory issue of PAN

Mandatory issue of EPFO registration (vi) Mandatory issue of ESIC registration

(vii) Mandatory issue of Profession Tax (viii) Mandatory issue of Profession Tax

registration (Maharashtra)

(ii) DIN allotment (iv) Mandatory issue of TAN

registration (Karnataka)

Mandatory Opening of Bank Account (x) Allotment of GSTIN (if so applied for) for the Company, and

A new and user friendly Dashboard on the Front Office has been created for company incorporation application (SPICe+ and linked forms as applicable)

The new web form facilitates On-screen filing and real time data validation for

- seamless incorporation of companies. Registration for EPFO and ESIC is mandatory for all new companies incorporated and no EPFO & ESIC registration nos. shall be separately issued by the respective
- Registration for Profession Tax is mandatory for all new companies incorporated in the State of Maharashtra and Karnataka. All new companies incorporated through SPICe+ are mandatorily required to apply
- for opening the company's Bank account through the AGILE-PRO linked web form.

APPOINTMENTS

POWER FINANCE CORPORATION LTD. invites applications of Officers from IAS/Civil

EXECUTIVE DIRECTOR (IPDS)

Last date of receipt of applications in

PFC Ltd. is by 17:30 hours on 31st January, 2021.



www.bankofbaroda.in

PUBLIC NOTICE LET IT BE KNOWN TO ALL THROUGH THESE PRESENTS that

the Bank of Baroda a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, having its Head Office, at Mandavi, Baroda in the State of Gujarat, India and Corporate Office at Baroda Corporate Centre, C-26. G-Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 (The Bank) do hereby remove and cancel all the powers and authorities given by the Bank to its employee Shri Captain Murari Deepak (EC No. 52890) by virtue of a Special Power of Attorney (SPOA), dated 15.03.2018 with effect from 05.01.2021.

Place: Mumbai

APOLLO PIPES LIMITED egistered Office: 37, Hargobind Enclave Vikas Marg, Delhi -110092 Corporate Office: Plot No. A-140, Sector-136, Noida-201301 Phone No: 0120 6587777

Email: compliance@apollopipes.com

NOTICE Notice pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirement) Regulations, 2015 (LODR), is hereby given that a Meeting of Board of Directors of the Company will held on Saturday, the 16th day of January, 2021, to inter-alia consider the following business:

to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended 31s December, 2020; and

any other matter as may be considered appropriate by the Board. Further please note that in accordance with

Code of internal procedures and conduct for regulating, monitoring and reporting of trading by Insiders and pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the "Trading Window" for dealing in the Equity Shares of the Company is already closed from 01st January, 2021 and shall re-open on 19thJanuary, 2021.

By order of the Board of Directors

Ankit Sharma Place : Noida

VARDHMAN ACRYLICS LIMITED Registered and Corporate Office: Vardhman Premises, Chandigarh Road Ludhiana - 141 010 (Punjab), India. Phones: 0161-2228943-48. Fax: 0161-2601048, 2220766 PAN: AAACV7602E;

Website: www.vardhman.com **COMPANY NOTICE** Notice is hereby given pursuant to

of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company has been scheduled to be held on Saturday, 16th day of January, 2021, inter-alia, to consider and approve the Un-audited

This notice is also available on the websites of:-

months ended 31st December, 2020.

For VARDHMAN ACRYLICS LIMITED

(Satin Katyal) Dated: 09.01.2021 **Company Secretary**

Though the government has not been drawn into the policy.

"I am waiting for a trademark er company said the Budget should

to emails," he said.

of Ilumya and Cequa).

Another important aspect

to watch out for in December is the operational cost. As Motilal Oswal analysts pointed out, operational costs will be higher for the domestic impacting the overall profitability of pharma companies sequentially. This is because with the field force back in business, marketing

segment,

Services for the post of

Deputation basis

For details login to website http://www.pfcindia.com/Careers

HEAD (LEGAL & RTI)

CIN: L51491PB1990PLC019212 -mail: secretarial.lud@vardhman.cor

Regulation 29, read with Regulation 47 Financial Results for the quarter/ nine

a) Company (www.vardhman.com)) National Stock Exchange of India Limited. (www.nseindia.com)

संक्षेप में

शोभा की बिक्री बुर्किग 29 फीसदी बढी

रियल्टी कंपनी शोभा लिमिटेड की बिक्री बुकिंग इस वर्ष त्योहारी मौसम के दौरान मकानों की मांग अच्छी रहने से तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर 29 फीसदी बढ़कर 887.6 करोड़ रुपये हो गई कंपनी ने चाल वित्त वर्ष की अक्टबर से दिसंबर तिमाही के परिचालन अपड़ेट में इसकी जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में उसकी बिक्री बुकिंग 689.9 करोड रुपये रही थी जो कि इस साल इसी अवधि में 887.6 करोड़ रुपये हो गई। शोभा ने 2020-21 की तीसरी तिमाही में 11,33,574 वर्ग फुट की बिक्री की, जबिक एक साल पहले की इसी अविध में यह 8,91,700 वर्ग फुट रही थी।

गैस्ट्रिक अल्सर की दवा वापस मंगा रही सिप्ला

सिप्ला अमेरिकी बाजार से गैस्टिक अल्सर के इलाज में उपयोग होने वाली दवा के 58 लाख से अधिक पैकेट वापस मंगा रही है। यएसएफडीए की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। कंपनी 10 एमजी, 20 एमजी और 40 एमजी की क्षमता वाली एसोमेप्राजोल मैगनेशियम दवा अमेरिकी बाजार से वापस मंगा रही है। सिप्ला ने इन दवाओं को महाराष्ट्र स्थित कुरकुंभ कारखाने में विनिर्माण किया था और उसे बाद में अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित सहायक इकाई को भेजा था। यूएसएफडीए के अनुसार अन्य उत्पादों के साथ संक्रमित होने से कंपनी इन दवाओं को वापस मंगा रही है।

[}] जिंस में तेजी से वाहन पर ब्रेक

प्रमुख जिंस में तेजी के कारण इनपुट लागत बढ़ने से वाहन कंपनियों की बढ़ी चुनौतियां

शैली सेठ मोहिले और र्डशिता आयान दत्त मुंबई/कोलकाता, 10 जनवरी

नपुट लागत में भारी वृद्धि होने से वाहन कंपनियों की चुनौतियां बढ़ गई हैं। ऐसे में उन्हें मांग में स्थिरता और लाभप्रदता के बीच सही संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। हालांकि कैलेंडर वर्ष के पहले महीने में वाहनों की कीमतों में वृद्धि एक सामान्य बात है। लेकिन इस साल इस्पात, रबर, रोडियम और प्लैटिनम सहित प्रमुख वस्तुओं की कीमतों ने उल्लेखनीय तेजी से वाहन कंपनियों की मुश्किलें बढ गई हैं।

वाहन कंपनियों के सामने यह चुनौती ऐसे समय में दिख रही है जब बिक्री में लंबे समय की मंदी के बाद सुधार दिखने ही लगा है। विश्लेषकों और वाहन कंपनियों के अधिकारियों का कहना है कि लागत में वृद्धि को पूरी तरह ग्राहकों के कंधों पर डालना समझदारी नहीं होगी क्योंकि इससे काफी समय तक अपनी खरीद योजना को टालने वाले खरीदार परेशान हो सकते हैं। बिक्री और लाभप्रदता में सही संतुलन बिठाने की जटिलता के कारण भारत की शीर्ष तीन यात्री वाहन विनिर्माताओं- मारुति सुजुकी, हुंडई



कीमत विद्ध संबंधी निर्णय लेने में देरी हुई है जबिक महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, किया मोटर्स सहित अन्य वाहन कंपनियां कीमत में वृद्धि की घोषणा कर चुकी हैं। ये तीनों कंपनियां संभवत: आगामी सप्ताहों के दौरान इस प्रकार की घोषणा

मारुति सुजुकी इंडिया के कार्यकारी निदेशक (बिक्री और विपणन) शशांक श्रीवास्तव का कहना है कि विनिर्माताओं को वॉल्यूम और लाभप्रदता के अच्छी मार्ग पर चलना होगा, क्योंकि हम सभी हाल ही में बुरे दौर से उबरे हैं। आने वाले सप्ताहों के दौरान मारुति दामों में बढोतरी की

बिक्री और लाभप्रदता में सही संतुलन बनाने की जरूरत

 मारुति सुजूकी, हुंडई मोटर्स इंडिया और टाटा मोटर्स ने फिलहाल कीमत बढाने की घोषणा नहीं की है

 जिंस की मांग अधिक होने से आपूर्ति में तेजी आई है जिससे कीमत बढ रही है

घोषणा करेगी। कंपनी ने 10 जनवरी तक कारों की बुकिंग करने वालों के लिए मूल्य सुरक्षा योजना शुरू की थी। श्रीवास्तव ने कहा कि कई मॉडल बेचे जा चुके हैं, क्योंकि लोग आने वाले समय की मुल्य वृद्धि से बचना चाहते थे। यह योजना यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि हम अपने खरीदारों को निराश नहीं होने देते हैं।

हंडई मोटर इंडिया भी मुल्य वृद्धि पर विचार कर रही है और कुछेक सप्ताह के दौरान इसकी घोषणा करेगी। कंपनी के निदेशक (बिक्री और विपणन) तरुण गर्ग ने यह जानकारी प्रयास रहेगा कि इस दाम वृद्धि को न्यनतम रखें। लेकिन ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि हाल के दिनों में विनिर्माण सामग्री की लागत में इस तरह की बढोतरी किसी ने नहीं देखी है।

मारुति के श्रीवास्तव ने कहा कि विनिर्माण सामग्री की लागत में विद्ध रोडियम की कीमतों में महंगाई का तगडा रुख दिखने से जोर पकड रही है। सात से आठ महीने की अवधि में इसके दाम 2,000 डॉलर प्रति औस से बढकर 16,000 डॉलर प्रति औंस तक हो चुके हैं। विभिन्न देशों द्वारा उत्सर्जन के मानदंड कडे किए जाने के बाद से इस कीमती धात की मांग बढ गई है। श्रीवास्तव ने बताया कि यह उत्प्रेरक परिवर्तक भारत स्टेज-6 और यूरो मानदंडों के लिए प्रमुख चीजों में से एक है। मांग से आपूर्ति में तेजी आई है जिससे दामों में इजाफा हो गया है।

घरेलू दामों को प्रभावित करने वाले अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रमख कच्चे माल की कीमतों में गत आउ महीनों के दौरान पिछले साल के मकाबले तेज बढोतरी देखी गई है। जापान की रबर के दाम पिछले साल की तुलना में 85 प्रतिशत बढ़ चुके हैं, चीन के हॉट रोल्ड इस्पात और लंदन मेटल एक्सेंचज पर एल्यमीनियम की कीमतों में क्रमश: 34.6 प्रतिशत और 32.2 प्रतिशत का

दुनिया भर में विस्तार करेगी रेबल फूड्स

पीरजादा अबरार बेंगलूरु, 10 जनवरी

कोरोनोवायरस वैश्विक महामारी के कारण फूड टेक्नोलॉजी कंपनी रेबल फूड्स की सेवाओं को रफ्तार मिली है क्योंकि वैश्विक महामारी संबंधी पाबंदियों के कारण घर पर ही रहना पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि मुंबई की इस कंपनी ने अब अपने कारोबार का विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर अपना एक वर्चुअल रेस्तरां ब्रांड तैयार करने की योजना बना रही है।

फासोस और बेहरोज बिरयानी

जैसे ब्रांड के लिए चर्चित यह कंपनी पश्चिम एशिया जैसे वैश्विक बाजारों में विस्तार पर एक बड़ा दांव लगा रही है। इसके तहत कंपनी खास तौर पर सउदी अरब, लैटिन अमेरिका, रूस और यूरोप में अपने कारोबार के विस्तार की योजना बना रही है। सिकोया के निवेश वाली रेबल फुड्स ऑनलाइन रेस्तरां का परिचालन करने वाली दिनया का सबसे बडा ऑपरेटर है। कंपनी भारत, यूएसई, दक्षिण पूर्व एशिया और ब्रिटेन में 300 से अधिक क्लाड किचन का संचालन करती है।

रेबल फूड्स के सह-संस्थापक कल्लोल बनर्जी ने कहा, 'वर्ष 2020 तक क्लाउड किचन मॉडल और डिजिटल ब्रांड निर्माण एवं इंटरनेट रेस्तरां के लिए काफी अनुकूल रहा है।' उन्होंने कहा, 'हम विभिन्न देशों में काम करने के लिए दुनिया भर में बातचीत कर रहे हैं। अचानक यह मॉडल काफी लोकप्रिय हो गया क्योंकि लोग रेस्तरां में नहीं जा सकते थे। यह हमारे लिए एक उल्लेखनीय पडाव है क्योंकि क्लाउड किचन में ऑपरेटरों और निवेशकों दोनों दिलचस्पी सर्वकालिक ऊंचाई पर है।'

रेबल फूड्स ने गोल्डमैन सैक्स, सिकोया, कोट्यू मैनेजमेंट और इंडोनेशियाई राइड-हेलिंग कंपनी गो-जेक सहित तमाम निवेशकों से कुल 34.23 करोड़ डॉलर की रकम जुटाई है। कंपनी अब अपने मौजूदा और नए निवेशकों से रकम जुटाने के लिए बातचीत कर रही है ताकि • रेबल फूड्स ३०० से अधिक क्लाउड किचन संग दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रेस्तरां ऑपरेटर है

 कंपनी का कारोबार पूरी तरह कोविड पूर्व स्तर तक लौट चुका है

 कंपनी पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका, रूस और यूरोप में विस्तार करेगी

 गोल्डमैन सैक्स, सिकोया, कोट्यू , गो-जेक जैसे निवेशकों से जुटाए 34.23 करोड़ डॉलर

 मूल्यांकन को १ अरब के पार पहुंचाने के लिए रकम जुटाने की योजना

वैश्विक स्तर पर विस्तार योजनाओं को आगे बढाया जा सके। सत्रों के अनसार, इससे कंपनी को यूनिकॉर्न यानी एक अरब डॉलर से अधिक मुल्यांकन वाला स्टार्टअप बनने में भी मदद मिलेगी।

पिछले साल की शुरुआत में कोविड-19 के प्रकोप के कारण रेबल फुड्स के कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन धीरे-धीरे उसमें सुधार हुआ और अब उसका कारोबार कोविड पूर्व स्तर पर पहुंच चुका है।

ईवाई इंडिया के पार्टनर एवं नैशनल लीडर (ई-कॉमर्स एवं उपभोक्ता इंटरनेट) अंकर पाहवा ने कहा, 'क्लाउड किचन मॉडल तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। इसमें काफी अवसर मौजूद हैं।' उन्होंने कहा, 'हमने भारत के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर देखा है कि रेस्तरां में ग्राहकों की आवक सीमित हो गई है। ऐसे में क्लाउड किचन ग्राहकों तक पहुंचने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहे हैं।'

रेबल फूड्स ने अब मलेशिया, सिंगापुर और बांग्लादेश में अपने दो ब्रांड लॉन्च किए हैं। इन ब्रांडों को स्थानीय स्वाद एवं प्राथमिकताओं के अनुकल तैयार किया गया था और अब थोडे समय में ही उल्लेखनीय परिणाम दिखने लगे हैं।

आरइन्फ्रा ने पार्वती

रिलायंस इन्फ्रास्टक्चर लिमिटेड

(आरइन्फ्रा) ने आज कहा कि

उसने पार्वती कोल्डम ट्रांसिमशन

कंपनी लिमिटेड (पीकेटीसीएल)

में अपनी पुरी 74 फीसदी

हिस्सेदारी को 900 करोड़ रुपये के

एंटरप्राइज मल्य पर इंडिया ग्रिड

ट्रस्ट (इंडिग्रिड) को बेच दी है।

एवं पंजाब राज्य में स्थित पार्वती

कोल्डम ट्रांसिमशन कंपनी

लिमिटेड में 74 फीसदी हिस्सेदारी

थी। पीकेटीसीएल पावरग्रिड

कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के

साथ संयुक्त उद्यम है। इस सौदे

की घोषणा नवंबर 2020 में की

गई थी। उस दौरान आरइन्फ्रा

और इंडिग्रिड के बीच एक

बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर

किए गए थे। कंपनी ने एक

विज्ञप्ति में कहा है अब वह सौदा

आरइन्फ्रा का हिमाचल प्रदेश

कोल्डम में बेची

पूरी हिस्सेदारी

परिसंपत्ति प्रबंधन कारोबार शुरू करेगी हाइंस

राघवेंद्र कामत मुंबई, 10 जनवरी

अमेरिका के निवेशक सह डेवलपर हाइंस इस साल भारत में तीसरे पक्ष के परिसंपत्ति प्रबंधन कारोबार शुरू करने की संभावनाएं तलाश रही है। कंपनी के पास करीब 144 अरब डॉलर की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां हैं।

हाइंस इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं कंट्री हेड अमित दीवान ने कहा, 'भारत में हम हम चयनित थर्ड पार्टी पोर्टफोलियो के लिए एंड ट्र एंड परिसंपत्ति प्रबंधन करेंगे जिसकी शुरुआत ऑफिस परिसंपत्ति से होगी। पट्टा और संपत्ति प्रबंधन सेवा दोनों में हमारे

लिए संभावनाएं होंगी।' वैश्विक स्तर पर कंपनी के परिसंपत्ति प्रबंधन कारोबार के तहत 344 संपत्ति/ 14.37 करोड़ वर्ग फुट जगह शामिल है। डीएलएफ ने वन होराइजन सेंटर में हाइंस की हिस्सेदारी को 780 करोड़ रुपये के एक सौदे के तहत खरीदा था। दोनों गुडगांव में एक अन्य वाणिज्यिक परियोजना पर भी काम कर रही हैं। कंपनी देश में रियल एस्टेट परिसंपत्तियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म भी तैयार करना चाहती है। दीवान ने कहा, 'हम कई डेवलपर्स और भुस्वामियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। समय आने पर इस संबंध में हम विस्तत जानकारी साझा करेंगे।'

फ्यूचर ग्रुपः जनवरी के अंत तक बिक्री होगी सामान्य

नई दिल्ली. 10 जनवरी

प्यूचर ग्रुप को उम्मीद है कि वैश्विक महामारी से संबंधित बाधा से पहुंचे खासे नुकसान के तकरीबन एक साल बाद जनवरी के आखिर तक इसके खुदरा कारोबार की बिक्री सामान्य स्तर पर लौट आएगी। यह कहना है फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक और समृह के मुख्य कार्योधिकारी किशोर बियाणी का। उन्होंने कहा कि बिग बाजार, एफबीबी, सेंट्रल और नीलगिरि जैसे प्रसिद्ध खुदरा मंचों का संचालन करने वाले फ्यूचर ग्रुप को बिक्री कोविड से पहले के तकरीबन 60 प्रतिशत स्तर तक पहुंचती हुई दिखाई दी है और कारोबार काफी हद तक सामान्य हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा स्टोरों में स्टॉक वैश्विक महामारी से पहले के लगभग 80 प्रतिशत स्तर पर हैं।

बियाणी ने कहा कि हमारे सभी स्टोर अब चालू हैं और हमारी बिक्री अब 50 से 60



प्रतिशत (कोविड से पहले) के स्तर तक पहंच गई है। स्टोरों में अब स्टॉक भी जा रहा है। मुझे लगता है कि हम पहले जिस निम्न स्तर पर थे (महामारी के दौरान), उससे तकरीबन 70 से 80 प्रतिशत स्तर पर हैं। फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों और प्रवर्तकों पर कुल मिलकार 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण है। आपूर्ति और स्टॉक की स्थिति के संबंध में बियाणी ने कहा कि जब हमने शुरुआत की (लॉकडाउन के बाद) उस समय जहां थे, उसके मुकाबले हम काफी बेहतर स्थिति में हैं। हम कारोबार को काफी हद तक सामान्य कर चुके हैं। अलबत्ता खुदरा स्टोरों में लोगों की भीड़ बढ़ने में कुछ वक्त लग सकता है। सामाजिक दूरी और अन्य वजहों से हम ज्यादा भीड नहीं जुटा पा रह है। जब तक सभी का टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक यह 100 प्रतिशत नहीं हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम उसी तर्ज पर लौट रहे हैं।

पिछले सालों की तरह फ्यूचर ग्रुप 26 जनवरी को अपने सालाना बिक्री कार्यक्रम -सबसे सस्ता दिन की भी तैयारी कर रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान बियाणी को लोगों की भीड में खासा इजाफा होने की उम्मीद है। उन्होंनें कहा कि 26 जनवरी के लिए हम विक्रेताओं और बैंकों से बात कर रहे हैं तथा काफी सारा माल तैयार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 26 जनवरी से हम पूरी तरह सामान्य या सामान्य से बेहतर हो जाएंगे। फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस इंडस्ट्रीज से बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जियो मार्ट को आपूर्ति करने के अलावा हम आंतरिक रूप से भी उनके साथ काफी आपूर्ति पर काम कर रहे हैं।

सार्वजनिक सूचना

के नाम से रजिस्टीकृत होना प्रस्तावित है। पार्टी

कार्यालय सरवनमपाक्कम जंक्शन, पेरियासेवलर्ड

उलुंदूरपेटटै (ता), विल्लुपुरम जिला–607209,

तमिलनाडु में स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व

अधिनियम. 1951 की धारा 29क के अधीन

राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन

प्रस्तुत किया है। पार्टी के पदाधिकारियों के

सभापति/अध्यक्ष: ई. एन्जिल्स, डोर नं.6,

अलईपगुदि, चेंगलरायन नगर, पेरियासेवलई.

विल्ल्पुरम जिला-607209, तमिलनाडु.

महासचिव/सचिव: एम. एथिराजन, डोर नं.6

अलईपगुदि, चेंगलरायन नगर, पेरियासेवलई

विल्लुपुरम जिला-607209, तमिलनाडु

कोषाध्यक्ष: के. तिरुमलपति, डोर नं.93,

उलुंदुरपेटटै रोड, चेंगलरायन नगर, पेरियासेवलई,

यदि किसी को तिमलनाडु माक्सिंस्ट पार्टी वे

रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति

इसके कारणों सहित सचिव (राजनीतिक दल)

भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली-110001 को, इस सूचना के प्रकाशन

ई. एन्जिल्स, सभापति/अध्यक्ष,

तमिलनाडु मार्क्सिस्ट पार्टी.

के 30 दिनों के भीतर भेजें।

विल्लुपुरम जिला–607209, तमिलनाडु.

नाम /पता नीचे दिए गए है:-

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नई दिल्ली में नर्ड दिल्ली पीठ के समक्ष कंपनी याचिका सं. सीएए-85/एनडी/2020

कंपनी आवेदन सं. सीए (सीएए) 110/एनडी/2020 से सम्बंधित कंपनी अधिनियम 2013 के मामले में

कंपनी (समझौते, व्यवस्था और समामेलन) नियम 2016 के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 एवं अन्य लाग प्रावधानों के मामले में

निम्नलिखित के बीच समामेलन योजना के मामले में केशव आईटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता सं. 1 /हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं.1

लोटस इंटरटेड प्राइवेट लिमिटेड याचिकाकर्ता सं. 2/हस्तांतरणकर्ता कंपनी नं.2

आरबीएन इक्विटी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड . याचिकाकर्ता सं. 3 /हस्तांतरिति कंपनी और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों

इस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 1 जिसका पंजीकृ . कार्यालय 7ए, एम.आई.जी. फ्लैट्स, पॉकेट-ए, जीटी बी एन्क्लेव, नंद नगरी, नई दिल्ली - 110093 मे स्थित है, को कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत 18 नवंबर, 2010 में निगमित किया गया था हस्तांतरणकर्ता कंपनी नंबर 2 जिसका पंजीकृत कार्यालय 188, स्वयं सेवा सोसाइटी, त्रिवेणी अपार्टमेंट झिलमिल कॉलोनी, नई दिल्ली - 110095 में स्थित है को कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत 13 अक्टबर, 2009 में निगमित किया गया था और हस्तांतरिति कंपनी जिसका पंजीकत कार्यालय 210 स्वयं सेवा सोसाइटी. सीजीएचएस. झिलमिल कॉलोनी नई दिल्ली - 110095 में स्थित है, को कंपर्न अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत 12 अगस्त 2009 में निगमित किया गया था)

याचिका की सूचना

सूचित किया जाता है की उपरोक्त नामित गचिकाकर्ताओं द्वारा कंपनी (समझौते. व्यवस्था और प्रमामेलन) नियम 2016 के साथ पढ़ित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230-232 अवं अन्य लाग ॥वधानों के अंतर्गत **केशव आईटी सर्विसेज प्राइवेट** लेमिटेड और लोटस इंटरट्रेड प्राइवेट लिमिटेड का **आरबीएन इक्विटी कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड** के साथ मामेलन की योजना का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए

यदि किसी व्यक्ति को कथित याचिका पर समर्थन र आपत्ति है तो वह अपने आशय, अपने नाम एवं पते वं

नाय स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षर करके ... प्राचिकाकर्ता कंपनी के अधिवक्ता के पास सनवाई की तिथि से दो (2) कार्यदिवस पूर्व तक भेज सकता है यदि वह याचिका का विरोध करता है तो इस सचना व साथ विरोध की पुष्ठभूमि अथवा शपथपत्र की एक प्रति उल्लेखित करनी होगी । याचिका की प्रति प्राप्त करने वे च्छक किसी भी व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शल्क भगतान पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपलब्ध कराः

गोयल एंड एसोसिएटर

सार्वजनिक सूचना

पूरा हो गया है।

राजनीतिक दल **भारत मक्कल कलगम** के नाम से रजिस्ट्रीकृत होना प्रस्तावित है। पार्टी कार्यालय नं.29/2, कासिमा नगर, 2री स्ट्रिट, रायपुरम, चेन्नई-600013, तमिलनाडु मे स्थित है। इस दल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत किया है। पार्टी के पदाधिकारियों के नाम /पता नीचे दिए गए है:-

सभापति/अध्यक्षः वी. प्रभाकरन, नं.299, एम.जी.आर. नगर अपार्टमेंट्स, कासिमेदु, रायपुरम, चेन्नई–600013. **महासचिव**/ सचिव: आर. सेल्वम. नं.इ354/415 सिंगारवेलन नगर पल्लम, तंडैयारपेटटै, चेन्नई-81. कोषाध्यक्ष: पी. निर्मल, नं.9-2, न्यू वार्ड नं.50, नॉर्थ माडा कोइल स्टिट, रायपुरम चेन्नई-600013.

यदि किसी को भारत मक्कल कलगम के रजिस्ट्रीकरण में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति इसके कारणों सहित सचिव राजनीतिक दल), भारत निर्वाचन आयोग नेर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली– 110001 को, इस सूचना के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेजें।

सार्वजनिक घोषणा भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन) कोर पेट्रोलियम लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानाकर्षण हेत कोपौरेट ऋणी का नाम कोर पेट्रोलियम लिमिटे कॉर्पोरेट ऋणी के गठन की तिथि 27.05.1992

प्राधिकरण जिसके अधीन कॉर्पोरेट ऋणी रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली गठित / पंजीकृत है कॉर्पोरेट ऋणी की कॉर्पोरेट आइडेंटिटी U23201DL1992PLC048931 संख्या / सीमित देयता पहचान संख्या कॉर्पोरेट ऋणी के पंजीकरण कार्यालय डी–11, साकेत, नई दिल्ली – 110017 तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता कॉर्पोरेट व्यक्ति की परिसमापन प्रारंभ 07-01-2021 तिथि नाम, पता, ईमेल पता, टेलीफोन नंबर और श्री राजेंद्र प्रसाद टाक, पताः चौथी मंजिल 3 / 15, आसफ अली रोड, दिल्ली—110002 ई—मेल आईडीः rptak@kgsomani.com टेलीफोनः 9313102552 पंजी. नं. IBBI/IPA-001/IP-P00526/2017-18/10951 दावे प्रस्तत करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 2021

इस प्रकार नोटिस दिया गया है कि कोर पेटोलियम लिमिटेड ने 7 जनवरी 2021 को स्वैद्धिक परिसमाप

श्रुप्त कर दिया है | शुरू कर दिया है | कोर पेट्रोलियम लिमिटेड के हितधारकों को इसके द्वारा 6 फरवरी 2021 को या उससे पहले, आइटम 7 समक्ष उल्लिखित पते पर परिसमापक को अपने दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है । वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों से दावों का सबूत जमा करेंगे। अन्य लेनदारों समेत परिचाल लेनदारों को पोस्ट द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा या व्यक्तिगत रूप से दावों का सबूत जमा कर सकते हैं। दावे के झते या भ्रामक सबत जमा करने से जर्माना आकर्षित होगा।

तिशि: 11-01-2021

IBBI/IPA-001/IP-P00526/2017-18/10951 फ अली रोड, दिल्ली—110002 कृते **कोर पेट्रोलियम लिमिटेड**

बिज़नेस स्टैंडर्ड

बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा.) लिमिटेड, ए-८, सेक्टर-७, नोएडा, गौतम बद्ध नगर-२०१३०१ उ. प्र. से मुद्रित एवं नेहरु हाउस, ४ बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित संपादकः कैलाश नौटियाल

> आरएनआई न० WBHIN/2008/24333 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599 सबरिक्रप्शन और सर्कुलेशन के लिए कृपया संपर्क करें.. सुश्री मानसी सिंह

हेड कस्टमर रिलेशन्य बिजनेस स्टेंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ई मेल.. subs bs@bsmail.ir या 57007 पर एसएमएस करें SUB BS

डिसक्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के प्रचास किया जाता है। विद्यवस स्टेड के लियुजन एवं जानकारा से पर चारास्वाराचा के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टी के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लाग बिजनेस स्टेंडर्ड कोर्ड जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा ालार विषयित करिया है। बेन जाती है। बिजनेस स्टेंडर्ड के सभी विज्ञापन स्ट्रभाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिजनेस स्टेंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। रुषायत किसा मा प्रकार का दावा संवादत पञ्चावता स्व तिकार्य जाना वाहिए। मैठ बिजनेस स्टेंडर्ड प्राठ लिठ का संविधिकार सुरक्षित हैं । बिजनेस स्टेंडर्ड प्राठ लिठ से लिखित अनुमति लिए बगैर् समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनधिकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू

कोई हवाई अधिभार नहीं

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड सीआईएन नं: L65110MH1985PLC038137 शुद्धिपत्र

pपया मेसर्स बिज़नेस इंडिया पब्लिकेशन्स लिमिटेड की अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के में दिनांक 24.12.2020 को प्रकाशित ई-नीलामी बिकी नोटिस संदर्भ में पढ़ें। कर्जदार, जमानतियों, बंधककर्ताओं और सर्व साधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **लॉट नं. vı, v॥ और v॥।** में **"समस्त"** शब्द को **"भाग"** और लॉट नं.। को **''समस्त भूतल और बेसमेंट का भाग''** पढा जाए। शेष नोटिस यथावत रहेगा।

दिनांकः 11.01.2021

हिते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी



Read, Office: Engineers India House, 1, Bhikaii Cama Place, New Delhi - 110066 India ई—मेल / e-mail: company.secretary@eil.co.in, दूरमाष / Phone: 011-26762855/2580 कंपनी सचिवालय / COMPANY SECRETARIAT सूचना

> द्रक्विटी शेयरों का विनिधाकर्ता शिक्षा एव संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण को अनिवार्य अंतरण

यह सचना कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 124(6) के साथ प्रतित कारपोरेट मंत्रालय दार अधिसूचित और समय समय पर संशोधित विनिधाकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय), नियमावली, 2016 ('नियमावली') के प्रावधानों के अनुसरण प्रकाशित की जा रही है, जिसके द्वारा **यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसे सभी शेयर, जिनके** संबंध में लगातार सात अथवा अधिक वर्षों से लामांश का भुगतान अथवा उसके लिए दावा प्रस्तत नहीं किया गया है, आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किए जाएंगे। इसवे अतिरिक्त, आईईपीएफ नियमावली, यथासंशोधित, के अनसार, हम सभी अदत्त अथवा अदावित नाभांशों का पूर्ण विवरण कम्पनी की वेबसाइट और कारपोरेट मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड करते हैं।

कंपनी ने उन शेयरधारकों, जिनके शेयर उक्त नियमावली के अधीन आईईपीएफ को अंतरित कि जाने के भागी हैं. को व्यक्तिगत सचना उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर एवं ई—मेल पर पेषित की है जहां शेयरधारकों द्वारा ई–मेल आईडी पंजीकत करवाई गई है ताकि वे वित्तीय वर्ष 2013–14 (अंतरिम लाभांश), और आगे देय अदावित लाभांशों हेतु दावा प्रस्तुत कर सकें। कम्पनी ऐसे शेयरधारकों का पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.engineersindia.com पर भी अपलोड कर चुकी है। अंतरिम लाभांश 2013—14, जोिक अदत्त / अदावित रहा है, वह भी आईईपीएफ को अंतरित किया जाने का भागी है। उन शेयरधारकों का विवरण भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि हमें आपका दावा उपरोक्त सचना के अनसार 14.04.2021 (आईएसटी 5.00 बजे) तक प्राप नहीं होता है. आपके सभी संबंधित शेयर (चाहे भौतिक रूप में धारित हैं अथवा इलेक्टॉनिक रूप धारित हैं) कम्पनी द्वारा आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमेट खाते में कारपोरेट मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाओं / परिपत्रों, समय समय पर संशोधित के अनुसार, अंतरण की नियत तिथि से 30 दिनों के भीतर, आगे और कोई सचना दिए बिना, अंतरित कर दिए जाएंगे।

शेयरधारक कृपया नोट करें कि आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में क्रेडिट किए गए उनके शेयरों तथा लाभांशों के संबंध में कम्पनी के विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा आईईपीएप प्राधिकरण को शेयरों के उक्त अंतरण के पश्चात, वे सभी भावी लाभ, जो उनके अधीन उद्भूत ह सकते हैं, भावी लाभांश (शों) सहित, आईईपीएफ प्राधिकरण को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आप नो करें कि उपरोक्त अंतरण के पश्चात आईईपीएफ पाधिकरण से धनवापसी का दावा केवल ऊप वर्णित नियमावली के प्रावधानों का अनपालन करते हुए प्रस्तुत किया जा सकता है और इस संबं में एक लिंक कंपनी की वेबसाइट में निवेशक सेक्शन के अंतर्गत दिया गया है।

आपके तत्काल संदर्भ के लिए, आईईपीएफ प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय नियमावली. 2016 और उसके संशोधन और आईईपीएफ वेबसाइट के लिए लिंक, कंपनी क वेबसाइट : www.engineersindia.com पर निवेशक सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए अथवा शेयरधारक www.iepf.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इसके अतिरिक्त स्पष्टीकरणों अथवा सहायता के लिए, आप हमें नीचे दिए पते पर लिख सकते हैं

(i) श्री वीरेन्द्र शर्मा महायक प्रबंधक यूनिट : इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड मैसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड 205-208. अनारकली कॉम्प्लेक्स झंडेवालान एक्सटेंशन नई दिल्ली—11005 ईमेल आईडी : virenders@alankit.com

फोन : 011-42541234

तिथि : 10 जनवरी, 2021

स्थान : नई दिल्ली

कंपनी सेकेटरी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली — 110066

(ii) श्री एस.के. पाढी

ईआई हाउस. 1. भीकाजी कामा प्लेय ईमेल आईडी : company.secretary@eil.co.iı दूरभाष : 011-26762121 वास्ते इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

हस्ता /

एस.के. पाढ़ी

उत्तर: टाइटल डीड के अनुसार

दिनांक: 06.01.2021

कंपनी सेक्रेटरी सदस्यों से अपील हम सदस्यगण से अपनी ई-मेल आईडी'ज / बैंक आदेशपत्र / मोबाइल नंबर कम्पनी व रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट अथवा संबंधित डीपी के पास पंजीकृत करवाने का अनुरोध करते हैं, ताकि वे कम्पनी से वार्षिक रिपोर्ट / लाभांश (यदि कोई) तथा अन्य पत्राचार ऑनलाइन मोडस के माध्यम से प्राप्त कर सकें।

अपोलो पाइप्स लिमिटेड सीआईएन: L65999DL1985PLC022723 सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि **पंजीकृत कार्यालयः** ३७, हरगोविंद एन्कलेव राजनीतिक दल तिमलनाडु मार्क्सिस्ट पार्टी विकास मार्ग, दिल्ली–110092

कॉरपोरेट कार्यालय: प्लॉट नं. ए-140 सेक्टर-136. नोएडा-201301 ईमेलः compliance@apollopipes.com वेबसाइटः www.apollopipes.com

सूचना सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) नियमावली 2015 (एलओडीआर) के नियम 29 के अनसार एतदद्वारा सचित किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक शनिवार, ne जनवरी, 2021 को अन्य विषयों के साथ

निम्नलिखित व्यवसाय के लिए आयोजित की **1.** 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और अनुमोदन; और 2. अन्य कोई विषय जो बोर्ड को उचित लगे। साथ ही सेबी (अनाधिकृत ट्रेडिंग निषेध) विनियमावली,

2015 के अनुसार कंपनी के पदनामित व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग नियमन, अनुवीक्षण और रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक प्रकिया और आचार संहिता के अनुपालन में कंपनी की ट्रेडिंग विंडो कंपनी के इक्विटी शेयरों में लेन-देन के लिए 01 जनवरी, 2021 से पहले ही बंद है और यह 19 जनवरी, 2021 को पुनः खुलेगी। निदेशक मंडल के आदेशानुसार

हिते अपोलो पाइप्स लिमिटेड अंकित शर्मा

दिनांकः 09 जनवरी, 2021 कंपनी सचिव

जब कि

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सचना

(अचल संपत्ति हेतु)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (आईएचएफएल) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्टशन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार **राकेश शर्मा और मीना रानी** को 04.10.2019 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. R033XII-02 (पहले लोन खाता नंबर HHLRHN00211728) की राशि रू.36,08,847/- (रुपए **छत्तीस लाख आठ हजार आठ सौ सैतालीस मात्र) 04.10.2019** के अनुसार और उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सचना जारी की थी । इसके अलावा आईएचएफएल द्वारा दिनांक 31.12.2019 के असाइनमेंट करार द्वारा इंडियाबुल्स एआरसी-XII के ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पक्ष में उपरोक्त सभी ऋणो के अधिकार, शीर्षक और इन्टेस्ट को सोंपा गया है

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व प्रामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा 4 के साथ उक्त कानन के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्टेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रल्स. 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 06.01.2021 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है। विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एततद्वारा संम्पति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशी रू.36.08.847/- (रुपए छत्तीस लाख आठ हजार आठ सौ सैतालीस मात्र) 04.10.2019 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ **इंडियाबल्स एसेट रिकंस्टक्शन कंपनी लिमिटेड** के आधीन होगा.

धारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

युनीट/अपार्टमेंट नं.सी-2604, जिसका सुपर बिल्ट अप एरिया 114.17स्के.मी. (लगभग) यानि 1229 स्के.फीट (लगभग), बिल्ट अप एरिया 91.32स्के.मी.(लगभग) चानि 983 स्के.फीट. (लगभग), पच्चीसवीं मंजिल पर, ब्लॉक /टॉवर-सी में, एक कवर्ड कार पार्किंग जगह बिअरींग नं. पीआर-सी-2604 के साथ, आरजी लक्जरी होम्स से पहचाने जाने वले प्रोजेक्ट में, प्लॉट नं. नीएच-07ए पर बना हुआ, सेक्टर-16बी, ग्रेटर नोएडा (पश्चिम) नोएडा-201301,उत्तर प्रदेश और जो निम्ननुंसार परिबद्ध है: पूर्व : टाइटल डीड के अनुसार पश्चिम: टाइटल डीड के अनुसार

पाधिकत अधिकारी इंडियाबुल्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इंडियाबल्स एआरसी-XII के टस्टी की ओर से

12 दिसंबर 2020 को एक याचिका प्रस्तुत की गई र्थ जो 17 दिसंबर 2020 को सचीबद्ध थी तथा माननीय राष्ट्रीय विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ. नर्ड दिल्ली के समक्ष कथित याचिका पर सुनवाई की तिथि 19 फरवरी 2021 को प्रातः 10:30 बजे निर्धारित की

अमित गोयल, अधिवक्ता

स्थान - नई दिल्ली

कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड कंसल्टेंट्स नापकाकतां के अधिवत्ते ए-42, नवकुंज अपार्टमेंट्स, **87, आई.पी.एक्सटेंशन, विल्ली-110092** तिथि - 9 जनवरी 2021 स्थान - नुई दिल्ली